

**Goodluck India Limited** 

Corp. Office: "GOODLUCK HOUSE" Nehru Nagar, Ambedkar Road, Ghaziabad-201001 U.P. (INDIA)

*Ph.*: +91-120-4196600, 4196700, Fax : 91-120-4196666, 4196777

Date: July 30, 2024

The Manager, DCS
The Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai

The Manager National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051

Ref: Scrip Code: - 530655 Scrip Code: - GOODLUCK

Sub: Newspaper Publication of Unaudited Financial Results

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the compliance of Regulations 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable provisions, kindly note that the Company has published the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30<sup>th</sup> June, 2024, in the Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper) (Publications enclosed herewith).

The said advertisement has also been uploaded on the website of the company.

This is for your information and records.

Thanking you

For GOODLUCK INDIA LIMITED

RAMESH CHANDRA GARG Director

Encl: as above

Regd. Office: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 (INDIA)

CIN: L74899DL1986PLC050910 | Website: www.goodluckindia.com | Email: goodluck@goodluckindia.com

Works: A-42 & 45, Industrial Area, Sikandrabad - 203205 Distt. Bulandshahr, U.P. (INDIA)

## **USERS ON RECOVERY OPTIONS**

# WazirX's \$230-mn breach plan upsets users

No response from the govt or RBI yet

**ENS ECONOMIC BUREAU** New Delhi, July 29

**EMBATTLED CRYPTOCUR-RENCY EXCHANGE WazirX's** decision to "socialise" the \$230 million loss from its recent security breach among all its customers has sent shockwaves across the industry. Socialising losses in what is a purely capitalistic venture has drawn the ire of crypto industry insiders who have questioned whether the strategy being explored by WazirX has any legal backing and if it could pass regulatory scrutiny.

The platform faced a major security breach earlier this month, which resulted in nearly half of its reserves getting stolen. Since then, the firm has halted deposits and withdrawals from its platform as it scrambles to come up with a workable solution to recoup some of its losses. The firm's ability to maintain 1:1 collaterals with assets has also been "deeplyimpacted". It has called the breach a "force majeure

(y) GCODLUCK

No.

Diluted:

Place: Ghaziabad

Date: July 29, 2024

Note:

**CRYPTO EXCHANGE FACES CUSTOMER HEAT** 



event beyond our control". The

government and Reserve Bank

of India are yet to publicly

socialised loss strategy to dis-

tribute the impact across all

users equitably... By socialis-

ing the loss, we ensure fair-

ness across our user base and

preserve the exchange's sta-

bility. This approach balances

quick access for some with

potential recovery for others,

aiming to resolve the situa-

tion more efficiently than tra-

ditional proceedings,"WazirX

"We are implementing a

and transparent

respond to the incident.

■The platform faced a major security breach earlier this month, which resulted in nearly half of its reserves getting stolen

■ Since then, the firm has halted deposits, withdrawals from its platform

■They plan to return **55%** Industry experts question the fairness and of holdings, lock 45% in legality of this approach **USDT-equivalent tokens** 

ing 45 per cent in USDT-

equivalent tokens. This will

also impact customers whose

tokens were not directly

affected by the breach, with

the company stating that

"users with 100% of their

tokens in the 'not stolen' cate-

gory will receive 55% of those

down well, however. Ragul

The decision has not gone

tokens back."

Goel, former CEO of financial said in a blog post. Essentially, WazirX will services firm Equitymaster "rebalance" customer portfo-Research, called it "weird". "Is lios on its platform, returning there any legal or regulatory only 55 per cent of their holdsanctity to all this? Is anyone in the management liable for ings while locking the remain-

> always only the little guy that takes the hit?" he said on social media platform X. Sumit Gupta, founder of crypto investment platform CoinDCX said that WazirX's

move was "hurting other

ecosystem participants".

negligence that allowed the

hack in the first place? Why is

it that whenever something

goes wrong, it's almost

losses should always come from the company and the treasury and assets the company holds. I have not seen any such commitment around this from the company side, instead making customers directly absorb the 45% losses is utter non-

Customers

can either

trade with

recovery

priority or

recovery

priority

filed

trade/withdra

w with lower

■ WazirX has

complaints

with police,

CERT-In

"The first contribution to

FIU India, and

After the criticism, WazirX clarified that it was a "preliminary step" to understand users' opinions and "is not legally binding upon the users".

sense," Gupta said in a post

on X.

WazirX is offering users two options moving forward. The first option allows customers to trade and hold their assets with priority for recovery efforts but restricts withdrawals. The second one permits trading and withdrawals but places users at a lower priority for recovery. "55 per cent of user crypto assets will be made available for trading and/or withdrawals (depending upon the option that you select), while the remaining 45% will be converted to USDTequivalent tokens and locked," WazirX said in a blog post. "For both options, we'll

create a balanced portfolio for your unlocked portion (55%) using a basket of crypto assets derived from available crypto assets on the platform." In an email to users, WazirX said that it has filed an online police complaint on the National Cyber Crime Reporting Portal and is processing a physical complaint. It has also reported the incident to the Financial Intelligence Unit (FIU) India and the Computer Emergency Response Team (CERT-In).

**BHAKTI TAMBE & DHWANI PANDYA** Mumbai, July 29

Monday. The sale of existing shares will be Adani Group's first fundraise from equity markets after a \$2.5 billion share sale was scrapped in February last year after US-based short seller

manipulation.

## Adani to enter equity market via transmission biz share sale

JAYSHREE P UPADHYAY,

**ADANI ENERGY SOLUTIONS** 

led by billionaire Gautam Adani, is likely to launch a share sale this week to raise more than \$600 million, two sources with direct knowledge of the matter told *Reuters* on

Hindenburg Research accused the group of improper use of offshore tax havens and stock

Adani group denied Hindenburg's allegations, but shares of its group companies lost more than \$100 billion in value in total, before recovering in late 2023.

Power transmission unit

Adani Energy Solutions plans to raise the funds through the so-called Qualified Institutional Placement (QIP), a tool used by listed Indian companies to raise funds from large institutions, the two sources added, declining to be named as the plans are private.

A third source with direct knowledge said at least three foreign investors "which haven't invested in India so far' are set to invest in the offering, declining to elaborate further.

Adani Group did not respond to Reuters' request for

Bankers advising Adani include SBI Capital Markets, Jefferies and ICICI Securities, the first two sources said. None of the banks responded to requests for comment.

Since the Hindenburg report in January 2023, Adan Group companies have raised more than \$670 million through listed rupee bonds and one dollar bond.—REUTERS

### **GOODLUCK INDIA LTD.**

Regd. Off: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi -110 001 Website: www.goodluckindia.com | E-mail: goodluck@goodluckindia.com | CIN: L74899DL1986PLC050910 **Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial results** 

(Rs. in Lakhs) Consolidated Standalone 3 months 3 months | Year ended | 3 months | 3 months | Year ended **Particulars** ended on ended on ended on ended on 30/06/2024 | 30/06/2023 | 31/03/2024 31/03/2024 30/06/2024 30/06/2023 (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) Total income from operations 91,307.86 85,802.19 3,52,477.58 91,307.86 85,802.19 3,52,477.5 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 4,013.17 17,989.62 4,786.26 4,013.06 4,581.43 18,241.9 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or 4,013.17 4,013.06 18,241.93 4,581.43 17,989.62 4,786.26 Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after 2,859.07 13,226.7 3,446.59 2,859.18 13,053.98 3,599.83 Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period 2,859.18 2,859.07 3,446.59 13,053.98 3,599.83 13,226.7 (Comprising Profit/(Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital (Face value of Rs. 2 each) 545.13 545.13 635.4 654.77 635.48 654.77 Reserves (excluding Revaluation Reserve as NA 1,01,361.96 NA ,13,509.5 NA NA shown in the Balance Sheet of previous year) Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinuing operations) 10.80 10.49 45.92 11.19 10.49 46.4

1. The above Financial Results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held

10.49

10.80

- Previous period figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.
- The Statutory Auditor has carried out a Limited Review of the result of the Company.
- 4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial results filed with the stock exchange as under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financia Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and on Company's website (www.goodluckindia.com).

For Goodluck India Limited

10.49

46.4

M C Garg Chairman DIN:00292437

## New UK govt to soon resume FTA talks with India, prioritises trade

**ADITI KHANNA** London, July 29

THE PROCESS OF getting negotiating teams back in the room will kick-start soon to deliver a Free Trade Agreement (FTA) with India, the UK's newly elected Labour government announced on Monday as it set out its trading priorities.

Business and Trade Secretary Jonathan Reynolds spelt out his department's approach to international trade deals, which he said will put economic growth at the heart of the negotiations to achieve high-quality pacts that give British businesses access to international markets and boost jobs.

The Department for Business and Trade (DBT) said it also plans to publish a trade strategy which aligns with the government's industrial strategy, enhances economic security and supports net zero



India and the UK began negotiating an FTA in January 2022

ambitions. "Boosting trade abroad is essential to deliver a strong economy at home. That's why I've wasted no time taking stock of progress and getting ready to press on with trade talks with our international partners," said Reynolds.

"From the Gulf to India, our trade programme is ambitious and plays to the UK's strengths to give British businesses access to some of the most

exciting economies in the world.Our teams will be entering negotiating rooms as soon as possible, laser-focused on creating new opportunities for UK firms so they can support jobs across the country and deliver the growth we desperately need," he said.

India and the UK began negotiating an FTA in January 2022 under the then Conservative Party government and 13 been completed since then to enhance the GBP 38.1 billion a year bilateral partnership. Reynolds has now set the tone for the new Labour government's plans to not only sign off on a deal, but also to carry on the process from where it was left off in the fourteenth round of discussions amid general elections in both countries. "India, with which the UK is

rounds of negotiations have

negotiating a Free Trade Agreement and Bilateral Investment Treaty, is projected to be the world's third largest economy by 2027. A trade deal would give UK businesses better access to its burgeoning market of middle-class consumers, projected to grow to over a quarter of a billion consumers by 2050," notes the DBT.

The announcement follows Foreign Secretary David Lammy's visit to India last week to discuss economic and global security.

### Hiring in power, RE sectors to grow 9%: TeamLease

**FE BUREAU** New Delhi, July 29

THE RENEWABLE ENERGY sector is witnessing a positive trend in workforce metrics. Employment in India's power and energy sector is expected to see a 9.01% surge in the first half of 2024-25, staffing firm TeamLease Services said in a report.

Through its 'Employment Outlook Report' for H1 FY25, TeamLease said remained the top city for jobs in the power and energy sector, with 56% of employers favouring the national Capital. Jaipur is a key emerging hub for new job opportunities, signalling a shift towards Tier II cities driven by infrastructure growth and renewable energy expansion, the report said.

The country has set ambitious targets for 2030, including reducing GDP emission

Delhi

intensity by 45% and achieving 50% cumulative electric power installed capacity non-fossil fuel-based energy sources. Jaipur is a

front-run-

top city for jobs in power and energy sector, with 56% favouring the national Capital

remained the

ner for new job locations at 14%, with Bengaluru, Chennai, and Vadodara tied at 13%, it stated. The trend highlights growth in estab-

lished metros while showcasing emerging opportunities in Tier II cities, likely driven by infrastructure development, policy incentives, and renewable energy expansion, added the report. "The impressive 9.01% net employment change in the power and energy sector signi-

fies a clear path towards a greener future. With 62% of industry participants expanding their workforce and leading cities such as Delhi, Bengaluru, and Mumbai driving this change, we have observed a remarkable shift in energy production and consumption, chief strategy officer, Team-Lease Services, Subburathinam P, said. Moreover, the govern-

ment's growing focus on green energy initiatives, industry 4.0, and systemic decarbonisation is propelling workforce growth in the power and energy industry and this progress is not only paving the way for achieving environmental goals but also boosting economic growth through job creation, he added. When it comes to job roles,

engineering positions are in the highest demand within the sector, with 67% of respondents indicating growth, the report added.

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम)

45.92

11.19



## Balmer Lawrie & Co. Ltd.

(A Government of India Enterprise)

(A Mini Ratna - IPSE)

Regd. Office: 21, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001, Tel. No. - (033) 22225313 email - bhavsar.k@balmerlawrie.com, Website: www.balmerlawrie.com CIN: L15492WB1924GOI004835

### Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2024

SI. No.	Particulars	STANDALONE				(% in Lakhs				
		Quarter Ending June 30, 2024 (Unaudited)	Preceding Quarter Ending March 31, 2024 (Unaudited)	Corresponding 3 Months Ending June 30, 2023 (Unaudited)	Year to date Figures for the Previous Year Ending March 31, 2024 (Audited)	Quarter Ending June 30, 2024 (Unaudited)	Preceding Quarter Ending March 31, 2024 (Unaudited)	Corresponding 3 Months Ending June 30, 2023 (Unaudited)	Year to date Figures for the Previous Year Ending March 31, 2024 (Audited)	
1	Total Income from Operations	64362.31	61670.54	59890.89	240416.53	65046.04	59439.16	60247.42	239025.93	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	5783.51	7819.91	5744.72	27865.34	5560.65	8792.41	5378.55	27448.94	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	5783.51	7819.91	5744.72	27865.34	5560.65	8792.41	5378.55	27448.94	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	4678.45	5135.54	4535.77	20347.17	4455.59	6108,04	4169.60	19930.77	
5	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4678.45	4710.97	4535.77	19922.60	6293.48	6898.16	5584.28	25306.68	
6	Equity Share Capital	17100.38	17100.38	17100.38	17100.38	17100.38	17100.38	17100.38	17100.38	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				125621.43				162287.52	
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (In ₹) (not annualised)									
	1. Basic:	2.74	3.00	2.65	11.90	3.73	4.32	3.35	15.30	
	2. Diluted:	2.74	3.00	2.65	11.90	3.73	4.32	3.35	15.30	

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in meetings on July 29, 2024. As required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, the Statutory Auditors have conducted Limited Review of the above financial results for the quarter ended June 30, 2024. Previous period / year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

Figures for the quarter ending March 31, 2024 are the balancing figures between the audited figures for the published year to date reviewed figures upto the third quarter i.e. December 31, 2023 of the previous financial year.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Quarterly Financial Results are available on Stock Exchange websites (www.nseindia.com) and (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.balmerlawrie.com).

On behalf of the Board of Directors (Saurav Dutta) Director (Finance) and CFO

Balmer Lawrie

Date : July 29, 2023

Place: Kolkata









financialexp.epapr.in







DIN: 10042140

New Delhi

"प्रपत्र सं. आईएनसी—26' छंपनी (निगमन) निवम, २०१४ के लिवम ३० के अनुसरण र केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निवेशक के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

**डिजी पल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** जसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : प्रोपर्टी नं, बी-2/3; (सरा पत्नोर, फ्रंट बिल्डिंग नं. ए, छतरपुर एक्सटेशन, वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110074 में स्थित है

आम जनता को यह सुचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजवानी क्षेत्र दिल्ली" से "इरियोणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारींख 10 जुलाई, 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन र संशोधन की मुष्टि की मांग की गई हैं। कंपनी के राजिएट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरए

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमलीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत वर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिलमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण चल्लिखित हो वे साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना व प्रकाशन की तारीख़ से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर्ते पर पंजीकृत क्षक दवारा मेज सकता है या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आयेदक कंपनी की उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृती की ओर से डिजी पल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरता. /

(चरणजीत सिंह) स्थान : नई दिल्ली निदेशक डीआईएन : 00185057 तिथि : 27.07.2024

प्रपत्र सं. आइएनसी-26 विधिमी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कपनी के पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन वें लिए समाचन पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विद्यापन

केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

गणाधिपति फाडनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड (CIN: U74899DL1995PLC073401) 复刊町 中間中 कार्वालय 5933 / 75, साजध बस्ती डरफूल सिंड, सदर थाना रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110006

एतददारा सार्वजनिक संबना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्र सरकार को कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के तह आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अप पंजिन्त कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' ों "**हरियाणा राज्य**" में बदलने में सबम बनाने के लि शनिवार, 15 जुन, 2024 प्रातः 11,00 बजे आवेजि प्रसाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताय के अनुसा कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन में परिवर्तन की पृष्टि करने की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कपनी के प्रजीकृत कार्यालय के ातावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह या तो निवेशक डिकायत प्ररूप फाइल कर **एमसीए-2**1 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत वर्ज कर संकर हैं या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उस विरोध का कारण उल्लिखित हो एक हलकनामें के ल अपनी आपति क्षेत्रीय निर्देशक उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग दसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह 14 दिनों मीतर प्रजीकृत जाक द्वारा भेजों और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को नीचे उल्लिखित उसके पंजीकृत कार्यंतय के पर पर एक प्रति भेजें। आवेदक के लिए और उनकी और से गणाधिपति फाइनेंस एड लीजिंग लिमिटेड

**尼秋田科**(/ दिनांक: 30.07.2024 पंकज सुराणा (निदेशक) बीआईएनः 01028974 पंजीकृत कार्यालयः 5933/75, साउथ बस्ती हरफूर सिंह, सदर थांना रोड, सदर बाजार, दिल्ली-11000 ई-मेल: pankaj surana74@gmail.com

प्रपत्र सं. आइएनसी-26 किंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कंपनी के पंजीवार कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन

के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष कंपनी अधिनिवम, 2013 वरी धारा 13 की रूप-धारा (4) और वांपनी (निगमन) नियम, 2014 के निवम 30 के जपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

तनसुख डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U45400DL2007PTC170344) इसका पंजीक कार्यालय 5933 / 75, बस्ती हरफूल सिंह, सदर

थाना रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110008 में स्थित एतदहारा सार्वजनिक खबना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्र सरकार की कंपनी अधिनियम, 2013 की भारा 13 के तहर आवेदन करने का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी अप पविकृत कार्यातय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' ते "हरियाणा राज्य" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 17 जून, 2024 को दोपहर 01.00 बजे भागोजित असाधारण अहम बैठक में पारित विशेष प्रज्ताव व अनुसार कंपनी के गंगोरंडम ऑफ एमोसिशन में परिवर्तन की

पुष्टि करने की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय व करताबित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह पा तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर **एमसीए-21** पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शवध पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विशेष का कारण वरिलक्षित हो, एक इसफनामें के सार अपनी आपति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग दसरी मंजिल, पंजित दीनदयाल अंत्योदय भवन सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस स्वना के प्रकारन की तारीख से चीदह 14 दिनों व मीतर पंजीवात डाक द्वारा मेजें और इसकी प्रति जावेदक कंपनी को मीचे उल्लिखित उसके पंजीवत कार्यालय के पर पर एक प्रति केनें। आवेदक के लिए और उनकी ओर र

दिनांक: 30.07.2024 पंकज सुराणा (निदेशक डीआईएन 01028974 पंजीकृत कार्यालयः 5933/75, बस्ती हरफ्ल सिंह सदर थाना रोड, सदर बाजार, दिरली-11000 ई-मेलः pankaj.surana74@gmail.com

तनसुख डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

प्रपत्र सं. आइएनसी-26 (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

कंपनी के पंजीकत कार्यालय एक राज्य से इसरे राज्य में परिवर्त-के लिए समाचार एवं में प्रकाशित किया जाने वाला विद्यापन केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र, कं समह

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड़ (ए) के मामले में

#### मेहर लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74899DL1990PTC041691) इसका गंजीकृत

कर्मालम 5933 / 75, साख्य बस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110006 ....(याचिकाकर्ता) एतदहारा सार्वजनिक सुचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्र सरकार को कपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजिलत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से "हरियाणा शाज्य" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए शनिवार, 15 जून, 2024 को दोपहर 02.00 बजे आयोजिल असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमेरिसम ऑफ एसोसिशन में परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उटिलिखित हो, एक हलफनामें के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस स्वना के प्रकारान की तारीख से चौदह 14 दिनों के मीतर पंजीकत डाळ द्वारा भेजें और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को भीत्रे उल्लिखित उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर एक प्रति भेजें। आवेदक के लिए और उनकी ओर से मेहर लीजिंग प्राइवेट सिमिटेड

हस्ताक्षर/-दिनांक: 30.07.2024 पंकज सुराणा (निवेशक) स्थान : दिल्ली ढीआईएनः 01028974 पंजीकृत कार्यांलयः 5933/75, साउथ बस्ती हरफूत सिंह, सदर धाना रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110006 ई-मेलः pankai.surana74@gmail.com मेयर अपैरल लिमिटेड

स्तावद्वराव एजाकावाद्वावादाकारीएजसीकोव्याप हीत. वार्धमधः ३ और ४, मीटम मंत्रर १६ किल संस-६, तात वांसाटेंसी के सार्थ्य (पाएस-६, गांव नामिवान, गृहवाम-12004 (विद्यान) भाग gree or ossumest. (43: informoverappard.com, filter nwn.merempjard.com 30 सूत्र 2024 क्षे समाप्त तिमाही के लिए स्टैडमतील केट-तेस्कापरीकित विश्वीत परिवार्मी का सार्यक्र

øi.	Sun		বাহিক বাংগ্রিব			
TÎ,	553.67	30 जून 2024	25 Fird 2004	अ जून १८५५	31 ¥96 2004	
		(अमेरकपरीक्षित)	(अधापरीक्षित)	(automatistics)	(describition)	
1	अंधान्त्र से वृत्र अतः	31.39	548.77	117.85	454,48	
2	असी में जिर पुत्र लगा/(सर्प) (कर मननाम और/या मनवाम तस्त्री ने पान)	(27:33)	(35.60)	(53.21)	(183.48)	
3	का से बहते की क्योंने के जिल्लाहा तक, हरकिए (स्वत्याम और, पर क्यासाम कर्मा के खद	(27.23)	(35.60)	(53.21)	(163.48)	
	बन के बार की असी के प्रेयर मुद्र ताम / (सर्वित) (आस्त्रतम और/पर अवस्थान बन्दुओं के जर्द)	(27.33)	(35.60)	(53.21)	(183.48)	
	जनते के तिहा शुन त्यापक जात (३१ त्यांचे के लिए (११९/१९७१) (तर के बच्च) और जात त्यापका अस्य (इस के बच्च) परिचा)	(27.20)	(36.07)	(53,14)	(163.02)	
5	बच्च इतिहरी संभा पूरी (काम भा वर्तमा पूछा ४ ३/-)	2,426.87	2,426.67	2.428.67	2,426.67	
7	संस्थित उन्ह		-47.034	772	(5,596.29)	
8	भवि सेवर वहत हेहलेक 27 - क) दूरा गाम	(0.03) 10.03)	(0.04)	(0.07) (0.07)	(0.23) (0.23)	

fi first riften auch addition, 2013 all ton 195 st over freshir modes that mout feat troy at argent from the Rev Re and B. and not and anti-Fresh of y some of one offer on addition that was absent from the state of the stat allow of the after after of the own of a discuss open, were at another and for a fater also got mostle for our to trains with probagat office ally auditory accretions. Milyane, 2015 it follows as it may write grants it white the registration from

Defin alread of those press on one aim it is to countries fresh farth office on on press ofto counts of descript new boundaries, the wind

42 THIRES SHEEL WAS INSTRUMENTALISM FOR STREET \$1. end alt and vi \$772/ गर्जेड जुन्दर शर्ज offrend als geinelien Sidmu विश्वीम ३५ मुलाई, ३१३४ क्षेत्र छलान्छ।



LIC Mutual Fund Asset Management Limited (Investment Managers to LIC Mutual Fund)

CIN No: U67190MH1994PLC077858 Registered Office: Industrial Assurance Bldg. 4th Floor, Opp. Churchgate Station, Mumbai - 400 020 Tel.No.022-66016000 Toll Free No. 1800 258 5678 Fax No.022-66016191 Email: service\_licmf@kfintech.com • Website: www.licmf.com

#### NOTICE NO. 28 OF 2024-2025

Hosting of the Annual Report of the Schemes of LIC Mutual Fund for the Financial Year ended 31st March 2024

NOTICE is hereby given that in terms of Regulation 56 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and circulars issued from time to time, the Annual Report of all the Schemes of LIC Mutual Fund for the financial year ended 31st March 2024 has been hosted on the website of LIC Mutual Fund viz. www.licmf.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI) viz. www.amfiindia.com.

Unitholders can view or download the Annual Report from the website of LIC Mutual Fund or AMFI's website or submit a request for a physical or electronic copy of the Annual Report by any of the following modes:

- 1) Calling on toll free number: 1800-258-5678 from 9.00 a.m. to 6.30 p.m., Monday to Saturday; or
- 2) Sending an email to service licmf@kfintech.com from registered email id; or
- 3) Sending a duly signed written request to any of the Investor Service Centers of LIC Mutual Fund.

For LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED Date: 29th July 2024

Place: Mumbai

कार्यालय में प्रस्तुत/प्रेषित करने होंगे।

Authorized Signatory As part of Go-Green initiative, investors are encouraged to register/update their email ID

and Mobile Number with us to support paper-less communication. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरान्त "अधिनियम") के अंतर्गत, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (प ाँ **इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.** के रूप में अभिज्ञात) **(आईआईएफएल–एचएफएल) निगमित कार्यालयः** भूखण्ड सं. 98, उद्योग विहार, फेज**–IV**, गुडगांव, हरियाणा–122015 (ह कार्यालय " 30/30ई, अपर ग्राउंड फ्लोर, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली 110015 "के पास बंधककृत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि **आईआईएफएल-एचएफएल** के प्राधिकृत अधिका 'एओ'') ने, **आईआईएफएल—एचएफएल** की देयराधियों की वसूली हेतु, निम्नलिखित सम्पत्ति / यों का **'जैसा है जहां है, जो है जैसा है'** और बिना किसी सहारे के' पर विक्रय करने कें एकाधिका के साथ निम्नलिखित ऋण खातों /प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में उनका आधिपत्य ग्रहण कर लिया था। विक्रय, अधोहस्ताक्षरकर द्वारा वेबसाइटः www.iiflonehome.com पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा।

ऋणकर्ता(ओं)/	मांग सूचना तिथि	अच	ल संपत्ति/प्रतिभूति परिसंपत्ति	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य	
सह-ऋणकर्ता	एवं राशि		का विवरण	का विवरण	<b>₹.</b> 15,67,000/-	
(ओं)/गारंटर(रों)	1 <del>5 मार्च</del> 2024 एवं	नवादा गांव के क्षेत्र में	नें, कॉलोनी राम पार्क ब्लॉक सी के रूप में जानी	19—जुलाई—2024	(रूपए) पंद्रह लाखा सरसठ	
1. श्रीमती गीता	ਓ. 9,19,171 ∕─	जाती है, उत्तम नगर नई दिल्ली, 110059 स्थित संपत्ति संख्य		दिनांक 04-जुलाई-2024	हजार मात्र)	
<b>2</b> श्री अंकित कुमार	(रु. नौ लाख उन्नीस हजार	4,	ांख्या ४९९ में से संपत्ति का वह हिस्सा और अंश	तक कुल बकाया राशि	बयामा राशि नमा (ईएमडी)	
(प्रॉस्पेक्ट नं	एक सौ इकहत्तर मात्र)		कार सहित पुरी तीसरी मंजिल शामिल है, क्षेत्र	<del>र</del> ू. 8,81,056/-	रू. 1,56,700/- (रूपए एक लाख छप्पन हजार	
IL10264182)	बोली वृद्धि राशि		<b>ांपत्ति का प्रकारः</b> निर्मित क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र संपत्ति	(आठ लाख इक्यासी हजार		
1110204102)	₹. 25,000/-	क्षेत्रः 405.00, 324.00	-	छप्पन रुपये मात्र)	सात सौ मात्र)	
	(पच्चीस हजार रूपये मात्र)					
1. श्रीमती राज	14—मार्च—2024	मटियाला गांव, आबा	दी क्षेत्र में जिसे कॉलोनी नन्हे पार्क के नाम	19—जुलाई—2024	<del>ਰ</del> . 13,93,000/-	
नंदिनी	⊽. 17,11,945 ∕ —	से जाना जाता है,	उत्तम नगर, नई दिल्ली, 110059 स्थित खसरा	दिनांक 04-जुलाई-2024	(रूपए तेरह लाख तिरानबे	
2 श्री आशीष झा	(रु. सत्रह लाख ग्यारह हजार नौ	संख्या 21/14 में से	बिना छत/ छत के अधिकार के ऊपरी भूतल,	तक कुल बकाया राशि 🐁	हजार मात्र)	
(संभावना संख्या	सौ पैंतालीस मात्र)	निर्मित संपत्ति के पी	छि बाईं ओर प्लॉट संख्या ई–90 वाली संपत्ति	<b>ਦ</b> ਾ. 17,31,454/−	बयाना राश्चि जमा (ईएमडी)	
IL10215113)		का वह हिस्सा एवं	अंश। क्षेत्रफल माप <b>(वर्ग फीट में): संपत्ति का</b>	(सत्रह लाख इकतीस हजार	<del>ਰ</del> . 1,39,300/–	
	बोली वृद्धि राशि	प्रकार: बिक्री योग्य ह	तेत्र, कालीन क्षेत्र संपत्ति क्षेत्रः 360.00, 238.00	चार सौ चौवन मात्र)	(रूपए एक लाख उन्तालीस	
	<b>रु. 25,000/</b> — (पच्चीस हजार रूपये मात्र)				हजार तीन सौ मात्र)	
	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि		ईएमडी की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय		
02-1	सितंबर-2024 को 1100 बजे -1400	बजे	04-सितंबर-2024 को शाम 5 बजे तक	06-सितंबर-2024 को 1100 बजे से 1300 बजे तक		

भुगतान का मोर्ङ्श्एमडी का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से किया जाना है। भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति / प्रतिभूरि परिसंपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा। शेष भुगतान के लिए, सफल बोली पर, आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना होगा। खातों के विवरण इः प्रकार हैं: क) खाता का नाम:- आईआईएफएल होम फाइनेंस लि., ख) बैंक का नाम- स्टैंडर्ड चार्टर बैंक लि., ग) खाता सं: 9902879xxxxx के बाद प्रॉस्पेक्ट नंबर, घ) आईएफएससी कोटर CBL0036001, **ड) बैंक का पता**: स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 90 एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई-400001

ई—नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com के साथ पंजीकृत कर लें और उन्हें इ हेतु लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सुजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने **"निविदा प्रपत्र",** धराज के भुगतान विवरणों, केवाईसी एवं पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शार

बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को, स्तंम **'बोली वृद्धि राधि'** के अंतर्गत वर्णित राधि के गुणक में बढ़ाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान किया जाता है तो सम 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ़ जाएगा। . सफल बोलीदाता को बोली राषि की 25 प्रतिषत राषि (धराज का समायोजन करने के उपरान्त) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राषि की शेष 75 प्रतिष

रकम प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपुष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा मुगतान जो हैं, वो भुगतान के निर्धारित प्रारूप के तहत किए जाएंगे। क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य संवैधानिक देयराषि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम कर, विद्युत प्रभारों, भूमि एवं सम अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों का भगतान वहन करना होगा। बोलीदाताओं को सलाह है कि वे ई—मीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय एवं नीलामी आवेदन प्रपत्र के विस्तत नियमों एवं शर्तों हेत वेबसाइ

https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देख लें। विवरणों, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रिषक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं, वे सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी care@iiflone home.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर्सरू /18 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।

सम्पत्ति से संबंधित किसी पृष्ठताछ, संपत्ति का निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि के लिए **आईआईएफएल एचएफएल** टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बज

तक कॉल करें या ईमेल:- care@iiflone home.com पर लिखें। एतदद्वारा उपरोक्त ऋणकर्ताओं को सचित किया जाता है कि वे उन घरेल वस्तओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें. जो भौतिक आधिपत्य लिए जाने के समय प्रतिभति परिसम्पत्ति स्थल पर पड़ी हुई होंगें अन्यथा **आईआईएफएल-एचएफएल** किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति की किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।

। आगे ऋणकर्ता/ओं को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त कथित वस्तओं को एकत्र करने में विफल रहते हैं. तो वस्तुओं को विधि—व्यवस्था के अनुसार बेच दिया जाएगा। 10. उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भूगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहले चुकता की गई राषि (धरार सहित) को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा।

11. एओ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा / नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित / निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते हैं। निविदा / नीलामी में किसी विवा की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफॉएसि अधिनियम २००२ के नियम ८(६) के अंतर्गत ३० दिवसीय संवैधानिक विक्रय सूचना हणकर्ताओं को एतदहारा अधिसूचित किया जाता है कि वे निविदा ⁄ नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर वर्णितानुसार राषि का अद्यतनीकृत ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफ

हने पर, सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी/उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराषियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी।

स्थानः दिल्ली, दिनांकः 30- जुलाई-2024 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

(2) GOODLUCK गुडलक इंडिया लिमिटेड

पंजीकत कार्यालयः 509 अरुणाचल बिल्डिंग बाराखम्भा रोड कर्नोट प्लेस नई दिल्ली-110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com | ई—मेलः goodluck@goodluckindia.com | CIN: L74899DL1986PLC050910 20 जन 2024 को समाज निमारी के एकत्र व समेकित अनंकेशित

	30 जून, 2024 का सम विव	ाप्त ।तमाह त्तीय परिण			मत अनक	वित	(रू. लाख में)	
		एकल			समेकित '			
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30/06/2024 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30/06/2023 (अनंकेक्षित)	समाप्त वार्षिक 31/03/2024 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30/06/2024 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30/06/2023 (अनंकेक्षित)	समाप्त वार्षिक 31/03/2024 (अंकेक्षित)	
1	परिचालनों से कुल आय	91,307.86	85,802.19	3,52,477.58	91,307.86	85,802.19	3,52,477.58	
2	शुद्ध लाभ/हानि अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवाद स्वरूप तथा/अथवा असाधारण सामग्री से पूर्व)	4,581.43	4,013.17	17,989.62	4,786.26	4,013.06	18,241.93	
3	शुद्ध लाभ/(हानि) अवधि हेतु कर के पूर्व (अपवाद स्वरूप अथवा असाधारण सामग्री के पश्चात्)	4,581.43	4,013.17	17,989.62	4,786.26	4,013.06	18,241.93	
4	शुद्ध लाग / (हानि) अवधि हेतु तथा कर पश्चात् (अपवाद स्वरुप तथा / अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात्)	3,446.59	2,859.18	13,053.98	3,599.83	2,859.07	13,226.79	
5	अवधि हेतु कुल योग व्यापक आय [अवधि हेतु लाम/ (हानि) शामिल कर के (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्)]	3,446.59	2,859.18	13,053.98	3,599.83	2,859.07	13,226.79	
6	इक्विटी शेयर पूंजी(अंकित मुल्य रु.2/- प्रत्येक)	654.77	545.13	635.48	654.77	545.13	635.48	
7	संचय (गत वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाए गए अनुसार पुनर्मूल्यांकन संचय को छोड़कर)	NA	NA	1,01,361.96	NA	NA	1,13,509.59	
8	प्रति अंश आय (रु. 2/ – प्रत्येक) (लगातार, सतत तथा रियायती संचालन हेतु) मूलभूतः	10.80	10.49	45.92		10.49	46.41	
	दवः	10.80	10.49	45.92	11.19	10.49	46.41	

नोटः 1. उपर्युक्त वित्तीय परिणाम लेखा परिक्षा समिति द्वारा समीक्षा उपरान्त निदेशक मंडल 29.07.2024 को हुई बैठक में अनुमोदित कर दिए गए हैं।

2. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, फिर से वर्गीकृत / पुनर्गठित किए गए हैं। 3. सांविधिक लेखा परीक्षक ने कंपनी के परिणाम की सीमित समीक्षा की है।

स्थानः गाजियाबाद

तिथिः जुलाई 29, 2024

4. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियमावली, 2015 (''सूचीकरण विनियमन'') के विनियम 33 के तहत बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॅक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए समाप्त तिमाही के विस्तुत (स्टैंडअलोन और समेकित) अनकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश है। समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट (www.nseindia.com, www.bseindia.com) और कम्पनी की वेबसाइट (www.goodluckindia.com) पर भी उपलब्ध है।

> कृत गुडलक इंडिया लिमिटेड हस्ता. /-

एम सी गर्ग चैयरमैन DIN: 00292437

#### JINDAL SAW LIMITED

CIN - L27104UP1984PLC023979

Regd. Off.: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403 Corp. Office : Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

'EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024 (₹ in Crores) Standalone Consolidated **Particulars** ear ended Quarter ended Quarter ended Year ended No. 30.06.2024 31.03.2024 30.06.2023 31.03.2024 30.06.2024 | 31.03.2024 | 30.06.2023 | 31.03.2024 Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Total income from operations 4,417,12 5,006.10 3,830.80 18,232,97 4,984.81 5,493.68 4,447,36 21,125.90 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) 377.42 2,188.28 2,216.48 601.28 710,33 583.00 665.80 353.53 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or 710.33 377.42 2,188.28 583.00 665.80 2,216.48 Extraordinary items#) 601.28 353,53 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or 1,592.87 Extraordinary items#) 446.15 529.07 279.14 1,614.10 416.43 480.37 244.29 Total comprehensive income for the period /year[Comprising profit/(loss) for the period/ year (after tax) and other comprehensive 1,610.09 1,607.13 445.15 521.48 280.33 411.99 471.74 income (after tax)] 252.03 Paid up Equity share capital 63.95 63.95 63.95 63.95 63.95 63.95 63.95 63.95 Reserves (excluding revaluation reserve) 10,447.06 10,127,38 8,752.33 10,127.38 10,029.38 10,511.01 10,191.33 8,816.28 10,191.33 10,404.50 10,093.33 10,093.33 Net worth 8,629.08 5,586.54 **Outstanding Debt** 4,168.91 3,886.92 4,654.47 3,886.92 5,844.69 6,300.38 5,586.54 0.40 0.38 0.53 0.56 0.55 0.73 0.55 Debt Equity Ratio 0.38 Earnings per share (of ₹ 2/- each) (\*not annualised) (1) Basic 14.02\* 16.64 8.78\* 50.77 13.86 15.79\* 8.33\* 52.75

#-Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated financial results for the quarter ended on 30th June 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated results for the quarter ended on 30th June 2024 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com/ www.bseindia.com) and on the

13.96\*

1.82

6.90

16.57\*

2.80

6.81

8.78\*

4.89

4.62

On behalf of Board of Directors of Jindal Saw Limited

15.72\*

2.50

5.67

13:801

1.61

5.78

50.70

3.91

5.51

Place: New Delhi Date: July 29, 2024

(2) Diluted

Debt Service Coverage Ratio

Company's website (www.jindalsaw.com).

Interest Service Coverage Ratio

HIDDAL

Sminu Jinda Managing Director DIN: 00005317

8.33\*

2.93

4.04

52.68

3.25

4.95

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA



## DHARIWALCORP LIMITED

Our Company was originally incorporated under the name "Dhariwalcorp Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation dated June 14, 2020, issued by the Assistant Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited and the name of our Company was changed to "Dhariwalcorp Limited" vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting of our Company held on April 01, 2024. The fresh certificate of incorporation consequent to conversion was issued on May 04, 2024, by Assistant Registrar of Companies/ Deputy Registrar of Companies/ Registrar of Companies, Centralized Processing Centre: The Corporate Identification Number of our Company is U24242RJ2020PLC069105. For further details, please refer to chapter titled "History and Corporate Structure" beginning on page 141 of the Red Herring Prospectus. Registered Office: 36, Narayan Nagar, Shobhawaton ki dhani, Pal Link Road, Jodhpur - 342001, Rajasthan, India;

> Tel No: + 91 70141 31630 | E-mail: investor@dhariwalcorporation.com | Website: www.dhariwalcorporation.com; Contact Person: Ms. Saloni Kachhawaha, Company Secretary and Compliance Officer

#### THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE MR. MANISH DHARIWAL, MS. SHAKSHI DHARIWAL AND MR. DILIP DHARIWAL

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICOR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON EMERGE PLATFORM OF NSE (NSE EMERGE)."

#### THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 23,72,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF DHARIWALCORP LIMITED ("OUR COMPANY" OR "DHARIWALCORP" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ [◆] LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH UPTO 1,23,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/-EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E., NET ISSUE OF UPTO 22,48,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A PRICE OF ₹ [◆] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [ • ] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [ • ] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [ •]% AND [ •]% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ISSUE **PROGRAMME**  ANCHOR BID OPENS ON WEDNESDAY, JULY 31, 2024 **OPENS ON: THURSDAY, AUGUST 01, 2024 CLOSES ON: MONDAY, AUGUST 05, 2024** 

### ADDENDUM TO RED HERRING PROSPECTUS DATED JULY 25, 2024 ("RHP") NOTICE TO INVESTORS (THE "ADDENDUM TO THE RHP")

ALLOTMENT PROCEDURE AND BASIS OF ALLOTMENT

The Allotment of Equity Shares to Bidders other than Retail Individual Investors and Anchor Investors may be on proportionate basis. For Basis of Allotment to Anchor Investors, Bidders may refer to Red Herring Prospectus. No Retail Individual Investor will be Allotted less than the minimum Bid Lot subject to availability of shares in Retail Individual Investor Category and the remaining available shares, if any will be Allotted on a proportionate basis. Flow of Events from the closure of bidding period (T DAY) Till Allotment:

On T Day, RTA to validate the electronic bid details with the depository records and also reconcile the final certificates received from the Sponsor Bank for UPI process and the SCSBs for ASBA and Syndicate ASBA process with the electronic bid details.

RTA identifies cases with mismatch of account number as per bid file / Final Certificate and as per applicant's bank account linked to depository demat account

and seek clarification from SCSB to identify the applications with third party account for rejection. Third party confirmation of applications to be completed by SCSBs on T+1 day.

RTA prepares the list of final rejections and circulate the rejections list with BRLM(s)/ Company for their review/ comments.

Post rejection, the RTA submits the basis of allotment with the Designated Stock Exchange (DSE). The Designated Stock Exchange (DSE), post verification approves the basis and generates drawal of lots wherever applicable, through a random number generation

The RTA uploads the drawal numbers in their system and generates the final list of allotees as per process mentioned below:

Process for generating list of allotees: -Instruction is given by RTA in their Software System to reverse category wise all the application numbers in the ascending order and generate the bucket /batch as per the allotment ratio. For example, if the application number is 78654321 then system reverses it to 12345687 and if the ratio of allottees to applicants in a category is 2:7 then the system will create lots of 7. If the drwal of lots provided by Designated Stock Exchange (DSE) is 3 and 5 then the system will pick every 3rd and 5th application in each of the lot of the category and these applications will be allotted the shares in that category.

In categories where there is proportionate allotment, the Registrar will prepare the proportionate working based on the oversubscription times.

 In categories where there is undersubscription, the Registrar will do full allotment for all valid applications. On the basis of the above, the RTA will work out the allotees, partial allotees and non-allottees, prepare the fund transfer letters and advice the SCSBs to debit or

unblock the respective accounts. Accordingly, the chapter "Issue Procedure" on page 218 of RHP shall stand updated accordingly. Further, the RHP dated July 25, 2024 filed with ROC, can be accessed through the link on the website of Shreni Shares Limited at www.shreni.in from the website of Dhariwalcorp Limited at www.dhariwalcorporation.com, from the website of Stock Exchange i.e. NSE at www.nseindia.com and from the website of SEBI at

The above addition is to be read with the RHP and accordingly their references in the RHP stand amended pursuant to this Addendum to the RHP. The information in this Addendum to the RHP supplements the RHP and updates the information as applicable. However, please note that this Addendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the RHP and date hereof, and the information included in the RHP will suitably updated, including to the extent stated in the Addendum to the RHP, as may be applicable in the Prospectus, as and when filed with the ROC, SEBI and Stock Exchange

All capitalized terms used in this Addendum to the RHP shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the RHP.

**BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE** REGISTRAR TO THE ISSUE SHARES LTD. SHRENI SHARES LIMITED BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED) No. 217, Hive 67 Icon, Poisar Gymkhana Road, Lokmanya Tilak Nagar Poisar, Near Raghuleela Mall, Kandivali West, Mumbai - 400067, Maharashtra, India. Telephone: 022 - 2089 7022 E-mail: shrenishares@gmail.com Investors Grievance e-mail: info@shreni.in Contact Person: Ms. Tanya Goyal Contact Person: Mr. Vinayak Morbale Website: www.shreni.in SEBI Registration Number: INR000001385 SEBI Registration Number: INM000012759

Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400 093, Maharashtra, India. Telephone: 022 - 6263 8200 E-mail: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Dhariwal

Ms. Saloni Kachhawaha, Company Secretary

36, Narayan Nagar, Shobhawaton ki dhani, Pal

Link Road, Jodhpur - 342001, Rajasthan, India Telephone: +91 70141 31630 E-mail: investor@dhariwalcorporation.com

and Compliance Officer

Website: www.dhariwalcorporation.com Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post- issue related problems, such as non-receipt

of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, etc.

For Dhariwalcorp Limited Mr. Manish Dhariwal

Designation: Chairman & Managing Director DIN: 08762566

Dhariwalcorp Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, public issue of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with the Registrar of Companies, Jaipur, Rajasthan on July 25, 2024. The Red Herring Prospectus is available on the website of the Book Running Lead Manager at www.shreni.in, the website of the NSE i.e., www.nseindia.com, and website of our Company at www.dhariwalcorporation.com Investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Red Herring Prospectus, including the section titled "Risk Factors" of the Red Herring Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulations under the securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the

Date: July 29, 2024

Place: Jodhpur, Rajasthan

registration requirements of the Securities Act of 1933.